



# Tata Motors warns against lower GST for hybrid vehicles

alisha.sachdev@livemint.com **NEW DELHI** 

ny attempt to lower tax rates levied on hybrid cars will confuse the industry and "spread thin" the government's efforts to achieve its net-zero objectives, a senior official of Tata Motors, the country's leading passenger electric vehicle maker, cautioned on Wednesday.

Shailesh Chandra, managing director, Tata Motors' passenger vehicles and passenger EV divisions, said hybrid vehicles use a small battery pack and a motor that relies heavily on a fossil-fuel engine, effectively making them gasolinerun vehicles. He argued that hybrids do not align with the key objectives of achieving net carbon-zero, improving air quality levels, and cutting fossil fuel imports.

These objections come amid the Depart-

ment for Promo-Chandra tion of Industry dismissed the and Internal idea of incentives Trade (DPIIT) for hybrids as a and Ministry of "misguided Heavy Industries effort" by some move to seek the **OEMs** auto industry's consensus on rationalizing

Chandra dismissed the idea of offering incentives for hybrids, calling it a "misguided effort" by some Original **Equipment Manufacturers** (OEMs). He pointed out that fossil fuel-based technologies. such as Gasoline Direct Injection (GDI) and Compressed Natural Gas (CNG), contribute to improving fuel efficiency

taxes on hybrid passenger

vehicles.



Shailesh Chandra, MD, Tata Motors passenger vehicles and passenger EV divisions, AFP

without the need for additional incentives, highlighting the existing benefits for hybrids in the form of a 2% lower cess on hybrid vehicles.

India currently levies a goods and service tax (GST) of 28% on hybrid vehicles, and 5% on EVs.

Efforts by the India units of Japanese carmakers Toyota

Motor Corp. and Suzuki Motor Corp., which are global leaders in hybrid technologies and have been slow in developing and adapting fullyelectric vehicle

technologies, to

persuade the government to rationalize the GST levied on hybrid vehicles have once again split the industry into two distinct, vociferous lobbies—one. constituting domestic manufacturers Tata Motors, Mahindra & Mahindra & South Korean carmakers Hyundai and Kia, and the other consisting of Japanese carmakers Toyota, Suzuki and Honda.

# Indian firms struggle to find suitable directors for boards

More than 1,400 independent directors are set to retire by 1 April, as per primeinfobase.com

devina.sengupta@livemint.com

ndian companies scrambling to find replacements for their boardrooms are struggling to find candidates with the right technology chops or expertise in handling the outcomes of geopolitical uncertainties.

According to a study by executive search firm Heidrick & Struggles, three out of five respondents who participated in its survey are reshuffling their boards, and more than half of these firms are unable to find suitable talent.

The survey analysed responses from about 150 managing directors, board chairs and chairs of subcommittees in India to understand their business priorities for 2024, and their perception around refreshing their boards

More than 1,400 independent directors are set to retire by l April, according to data research firm primeinfobase.com. The Companies Act, 2013, stipulates that firms cannot have directors on their boards for longer than 10 Companies are seeking independent

directors with niche talent in digital and consumer behaviour, as well as an understanding of generative artificial intelligence, Heidrick & Struggles said in its study titled 2024 Heidrick & Struggles India of a board director  $CEO\ and\ Board\ Survey.$ 

"With key areas such as as stipulated by law cybersecurity risk and incorporating AI being top issues organizations are expected to face in the new year, many recognize the need to identify board members who possess the skill-sets and capabilities relevant in navigating these new challenges," the search firm said, shar-

ing findings of the study exclusively with



Companies are seeking independent directors with niche talent in digital and consumer behaviour, among ISTOCKPHOTO

Maximum tenure

Heidrick & Struggles said three in five respondents were seeking new directors either to overhaul their board or as they needed to hire a new director in 12-18 months. "About three quarters of the respondents cite the retirement


of a director as the reason they are undergoing a refresh, and one in two aim to infuse new skillsets into their boards," stated the study.

The hunt is proving tougher than expected also because of global factors that are weighing more heavily on Indian companies.

"Indian businesses are not isolated anymore and global crises like wars are impacting supply chains. Companies need experts who can offer strategies and guidance against these events,

### **Talent hunt**

Companies are looking for experts as board members who can help them navigate global crises like wars and supply-chain disruptions.



The survey covered 150 current manag and was conducted at the end of 2023 ng directors, board chairs and chairs of subcommitte

told Mint.

which is a rare skill-set," Suresh Raina,

partner at Heidrick & Struggles India,

Executive search firms have sought

out expatriates living in India to join

some of these boards, but such candi-

dates typically have high

demands. Potential "senior

directors ask for \$150,000-

\$200,000 (₹1.25-1.7 crore

per annum) to be part of a

Commissions of inde-

pendent directors on the

boards of Nifty50 compa-

nies have doubled over the

previous five fiscal years, accord-

ing to a study by consulting firm

An independent director's commis-

sion is largely dependent on a mix of fees

for attending board meetings, called sit-

ting fees, and commissions linked to a

board," said Raina.

Deloitte.

Source: 2024 Heidrick & Struggles India CEO and Board Survey

company's performance. While sitting

fees are capped at ₹1 lakh, commissions are expected to increase. Currently, about 84% of a director's payments is in the form of commissions,

with sitting fees accounting for the rest. At banks and insurance companies, the commissions account for about 89% of a

director's payments. Heidrick & Struggles Ceiling on sitting said that 41% of the fees for board respondents in its survey preferred experienced executives when appointing new directors. "There are a

> number of new directors but firms are not keen to hire those who haven't sat on boards before," said K. Sudarshan, managing partner at executive search firm EMA Partners. "We are working on 7-8 open positions for tech, manufacturing and fintech firms.'

# Chipmaker **Synaptics** eyes gains in India biz

Gulveen Aulakh gulveen.aulakh@livemint.com

S-based semiconductor design major Synaptics is looking at a rapid business upside from the Make in India initiative, specifically in areas of continuous glucose monitors, smart meters, and wearables where demand for locally-made devices is rising.

Synaptics president and chief executive Michael Hurlston told Mint in an interaction that a large opportunity has emerged from local manufacturers of these categories of devices that were looking for providers of semiconductors and software to increase the scale of local manufacturing.

"We see a big push in India now, particularly through the medical distributors, who are sourcing products from Europe or from US, they want to have a Made-in-India approach to continuous glucose monitoring and we are now engaging on that initiative," Hurlston said.

"India sources almost all meters that go on the sides of homes to measure electrical power consumption, water consumption, gasoline consumption, natural gas consumption from overseas. We are seeing a big push now for local industries to make smart meters. And we are engaging because the smart meter manufacturers don't have the semiconductor and software capability that we think we can bring to the table," he added.

Hurlston said Synaptics was reducing costs of its solutions to corner a larger share of the global and Indian market.

# हिन्दुस्तान

## **Hindustan Media Ventures Limited**

Registered Office: Budh Marg, Patna - 800001, India Tel: +91 612 222 3434 Fax: +91 612 222 1545 Corporate Office: Hindustan Times House, 2<sup>nd</sup> Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India Tel: +91 11 6656 1608 Fax: +91 11 6656 1445

	,, and mile mon		ecember 31, 202			
Particulars	(	Quarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended	
	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Revenue from operations	18,295	16,453	18,157	51,604	52,527	71,340
Loss for the period (before tax and/or exceptional items)	(187)	(1,451)	(427)	(613)	(6,589)	(5,642)
Loss for the period before tax (after exceptional items)	(187)	(1,451)	(427)	(613)	(6,589)	(5,642)
Loss for the period after tax and share of profit of joint venture	(82)	(633)	(68)	(79)	(5,017)	(3,809)
Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising loss for the period after tax and share of profit of joint venture and other comprehensive income (after tax)]	(61)	(993)	146	(376)	(8,585)	(11,424)
Paid-up equity share capital (Face value - INR 10/- per share)	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367
Other equity excluding revaluation reserves as per the balance sheet						1,40,19
Securities Premium Account	24,239	24,239	24,239	24,239	24,239	24,23
Net Worth (as per the Companies Act 2013)	1,52,240	1,52,299	1,50,980	1,52,240	1,50,980	1,52,27
Outstanding Debt®	15,034	10,880	23,618	15,034	23,618	5,69
Debt Equity Ratio (in times)	0.10	0.07	0.16	0.10	0.16	0.0
Capital Redemption Reserve	1	1	1	1	1	L
Debt Service Coverage Ratio (in times)	0.01	(0.10)	0.01	0.02	(0.21)	(0.57
Interest Service Coverage Ratio (in times)	0.48	(2.89)	0.29	0.39	(3.66)	(2.40
Loss per share (of INR 10/- each)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	
Basic & Diluted	(0.11)	(0.86)	(0.09)	(0.11)	(6.81)	(5.1

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR), as amended. The full format of the quarterly financial results are available on

be accessed on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com). The above consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on January 17, 2024. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of the above results pursuant to Regulation 33 and Regulation 52(4) of the SEBI LODR, as amended and have issued an unmodified review opinion.

The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.

Particulars Year Ended **Quarter Ended** Nine Months Ended September December 31, December 31, December 31, 2023 30. 2023 2022 2023 2022 2023 Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Audited Revenue from Operations 18,295 16,453 51,604 71,340 18,157 52,527 Loss Before Tax (204) (1,467) (528) (793 Loss After Tax (696 (312) (4,749) (5,729)(1,056)(12,364) (609)(9,297)

Date: January 17, 2024

# CIN: L21090BR1918PLC000013

Extract of oil-addition Consolidated Financial Results for the quarter and finite months ended December 31, 2025						
Particulars	(	Quarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended	
	December 31, 2023	September 30, 2023	December 31, 2022	December 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2023
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
Revenue from operations	18,295	16,453	18,157	51,604	52,527	71,340
Loss for the period (before tax and/or exceptional items)	and/or exceptional items) (187) (1,451) (427) (613)		(6,589)	(5,642)		
Loss for the period before tax (after exceptional items)	(187)	(1,451)	(427)	(613)	(6,589)	(5,642)
Loss for the period after tax and share of profit of joint venture	(82)	(633)	(68)	(79)	(5,017)	(3,809)
Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising loss for the period after tax and share of profit of joint venture and other comprehensive income (after tax)]	(61)	(993)	146	(376)	(8,585)	(11,424)
Paid-up equity share capital (Face value - INR 10/- per share)	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367	7,367
Other equity excluding revaluation reserves as per the balance sheet						1,40,196
Securities Premium Account	24,239	24,239	24,239	24,239	24,239	24,239
Net Worth (as per the Companies Act 2013)	1,52,240	1,52,299	1,50,980	1,52,240	1,50,980	1,52,276
Outstanding Debt <sup>®</sup>	15,034	10,880	23,618	15,034	23,618	5,697
Debt Equity Ratio (in times)	0.10	0.07	0.16	0.10	0.16	0.04
Capital Redemption Reserve	1	1	1	1	1	1
Debt Service Coverage Ratio (in times)	0.01	(0.10)	0.01	0.02	(0.21)	(0.57)
Interest Service Coverage Ratio (in times)	0.48	(2.89)	0.29	0.39	(3.66)	(2.40)
Loss per share (of INR 10/- each)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	
Basic & Diluted	(0.11)	(0.86)	(0.09)	(0.11)	(6.81)	(5.17)
Outstanding Debt comprises of current borrowings (including current maturities of long term borrowings) and non-current borrowings.						

## the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.hmvl.in). For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI LODR, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges (BSE and NSE) and can

# Additional information on standalone financial results is as follows:

Total Comprehensive Income/(Loss) For and on behalf of the Board of Directors

# **MAKE YOUR** MONDAY MORNING PLAYFUL Catch the latest section of **Problematics**






# IFL FINANCE

directors

# **Performance Highlights Q3FY24**



HIGHLIGHTS OF IIFL FINANCE LIMITED UNAUDITED RESULTS FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2023

	Qı	uarter Ended		Nine Months Ended			
₹ Crores	Dec 31, 2023	Dec 31, 2022	Growth % Y-o-Y	Dec 31, 2023	Dec 31, 2022	Growth % Y-o-Y	
Loan AUM	77,444	57,941	34%	77,444	57,941	34%	
Total income <sup>1</sup>	1,687.5	1,318.4	28%	4,712.0	3,690.0	28%	
Pre provision operating profit <sup>1</sup>	960.3	751.7	28%	2,674.4	2,057.4	30%	
Profit before tax	716.3	555.1	29%	2,018.2	1,518.5	33%	
Profit after tax (Pre NCI) <sup>2</sup>	545.2	423.2	29%	1,543.6	1,150.0	34%	
Profit after tax (Post NCI) <sup>2</sup>	490.4	378.3	30%	1,390.1	1,087.6	28%	
Earnings per share (in ₹) <sup>3</sup>	12.9	10.0	29%	36.6	28.6	28%	
Book value per share (in ₹)	266.6	225.6	18%	266.6	225.6	18%	

<sup>1</sup>Excluding Fair Value Changes. <sup>2</sup>NCI is Non Controlling Interest. <sup>3</sup>Quarter ended numbers are not annualised. These numbers pertain to IIFL Finance Limited (Consolidated). Detailed guarterly financial results are available on the Company's website viz. www.iifl.com and on the Stock Exchange website viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

IIFL Finance Limited • CIN: L67100MH1995PLC093797 • Email : IR@iifl.com • www.iifl.com Registered Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No. B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400 604 'प्रधानमंत्री का विजन, हमारा मिशन'

# मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश को 2027-28 तक वन द्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाएंगे

# यूपी अब बीमारू राज्य नहीं : योगी

### साक्षात्कार

🔳 सुनील द्विवेदी लखनऊ। मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा। यूपी की अर्थव्यवस्था वर्ष 2027-28 में वन ट्रिलियन डालर होगी। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था थी। हमने बीते छह वर्षों में दोगुनी वृद्धि के साथ युपी को अब देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बना दिया है। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने के बाद अयोध्या विश्व का सबसे ज्यादा पर्यटक आकर्षित करने वाला धर्मस्थल होगा। नई अयोध्या देश में पर्यटकों की संख्या का रिकार्ड तोड देगी और अर्थव्यवस्था का

प्रधानमंत्री का विजन ही हमारा मिशन : मुख्यमंत्री ने बुधवार को 'हिन्दुस्तान' से विशेष बातचीत में ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या हो. काशी या फिर मथुरा हो, आध्यात्मिक पर्यटन ने बहुत संभावनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर का लक्ष्य दिया है। हमने वर्ष 2027 तक वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री का जो विजन है वह



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

हमारा मिशन भी है। उसी के अनुरूप हमने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य प्रारंभ किए हैं।

वर्ष 2017 से पहले सेक्टर की पहचान तक नहीं थी: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले विकास के लिए सेक्टरों की पहचान ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश में तो हनुमान जैसी ताकत है लेकिन इसे भुला दिया गया था। लाख इकाइयां हैं। दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि हमारे पास है। देश में सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे पास है। यूपी अनेक संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कृषि उत्पादन में यूपी की डबल इंजन की सरकार राष्ट्रीय औसत से आगे है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कई मानकों पर यूपी पिछड़ा था। लोग बोलते थे कि यूपी पूरे देश को खराब कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री के

हमारे डाटा हैं, वे अब नेशनल औसत के समकक्ष या फिर आगे चल रहे हैं।

**66** वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री का जो

विजन है वह हमारा मिशन है। उनके

इस्तेमाल कर यूपी ने अभूतपूर्व विकास

विजन पर काम करते हुए फैमिली हेल्थ

औसत के समकक्ष या आगे चल रहे हैं।

का लक्ष्य हासिल किया है। पीएम के

सर्वे के जो डाटा हैं, वे अब नेशनल

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

विजन के मुताबिक तकनीक का

छह करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा: मख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 6 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से उबारा है और बीमारू राज्य की श्रेणी से यूपी मुक्त हो चुका है। बीमार शब्द यूपी से हटा देना चाहिए। यपी आज सरप्लस स्टेट है। प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक तकनीक का इस्तेमाल कर यूपी ने जो हासिल किया

एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 25

हजार रुपये के इनामी संदिग्ध फैजान

बख्तेयार को बुधवार को अलीगढ़ से

गिरफ्तार कर लिया। एटीएस को उसकी

वह आईएसआईएस के उस गैंग में

कई दिनों से तलाश थी।

है वह अभूतपूर्व है। किसी भी सेक्टर में देखेंगे तो हम आगे हैं। आज चाहे कानून-व्यवस्था हो या फिर रोजगार, हम आगे चल रहे हैं। जब हमने सरकार संभाली तो यपी में बेरोजगारी दर 19 फीसदी से अधिक थी। अब बेरोजगारी दर 2.4 फीसदी है। यूपी में एमएसएमई दम तोड रही थी। ओडीओपी के जरिये एमएसएमई धमाका कर रहा है। यह रफ्तार रही तो 2027-28 तक वन टिलियन डालर की अर्थव्यवस्था होगा।

विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने

की तैयारी कर रहा था। एटीएस के डीजी

प्रशांत कुमार ने बताया कि सूचनाएं मिल

रही थीं कि नवंबर में एटीएस द्वारा दर्ज

मुकदमे में वांछित अभियुक्त फैजान

बख्तेयार अलीगढ में ही कहीं छिपा है

और वह अपने अन्य साथियों के साथ

## अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा धार्मिक पर्यटन

मख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में जब हम आए थे तो धार्मिक पर्यटन तीन करोड़ के करीब था। यह बीते वर्ष 31.5 करोड़ के पास पहंच गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्टा होने दीजिए, चाहे काशी, ब्रज और अयोध्या हो आध्यात्मिक पर्यटन को सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा। यपी में पर्यटक संख्या कई गुना बढेगी। अयोध्या का विकास पर्यटन ही नहीं. बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देगा। अयोध्या में पर्यटन बढेगा तो वहां के बाजार, टैक्सी चालक, नाविक, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देगा।

### डबल इंजन सरकार ने अयोध्या को संवार दिया

मख्यमंत्री ने कहा कि 30 दिसंबर के बाद नई अयोध्या की झलक देखने को मिल रही है। अयोध्या में सिंगल लेन सडकें थीं। अब फसाड़ लाइटों के साथ चार लेन की सड़क बन चकी है। एक नया स्वरूप बन चुका है। हमें लोगों को, उनके मकानों को उजाड़ना पड़ा लेकिन किसी ने उफ तक नहीं किया। हर व्यक्ति दआ देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या को संवार दिया। अयोध्या जो पांच सदी तक अभिशप्त थी। वोट बैंक की राजनीति के तहत उपेक्षित किया गया था.वह वैश्वक मानचित्र पर चमकेगी।

वाले रिजवान अशरफ

शपथ ली थी।

जोड़ा गया।

आईएसआईएस की मदद करने की

उसने अपने पूर्व में गिरफ्तार साथियों

के साथ मिलकर अलीगढ़ में

आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार

किया और अन्य लोगों को भी इसमें

# पटाखों सेलदेटूक में धमाके, खाक हुआ

उन्नाव। उन्नाव में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तमिलनाड़ु के शिवाकाशी लाए जा रहे पटाखों से लंदे ट्रक में एक के बाद धमाके शुरू हो गए देखते ही देखते ट्रक धू-धूकर जलने लगा। दही पुरवा रोड स्थित खरगीखेड़ा गांव के पास मंगलवार सुबह पटाखों व अन्य सामान से लदा ट्रक बहराइच की ओर जा रहा था। अचानक उसमें आग लग गई। धुआं उठता देख तमिलनाडु निवासी चालक चिन्नू और खलासी सुबरासन ट्रक से कूदकर भागे।

# आयुष्मान बीमा कवर दस लाख करने की तैयारी

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना आयष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर दोगना यानी दस लाख रुपये करन की तैयारी में है। एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरित बजट में इसकी घोषण होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो सीधे देश के 12 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार यह रकम इसलिए दोगना करने पर विचार कर रही है।

# 22 जनवरी को कोर्ट में छुट्टी का अनुरोध किया

**नई दिल्ली।** बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचुड को पत्र लिखकर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर देशभर की सभी अदालतों में छुट्टी घोषित करने का अनुरोध किया है। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा लिखे गए पत्र में आयोजन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। पत्र में कहा अदालत के कर्मियों को अयोध्याँ और अन्यत्र संबंधित समारोहों में भाग लेने या देखने का मौका मिलेगा।

# आरएसएस पदाधिकारी नंदा को श्रद्धांजलि दी

**नई दिल्ली।** आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी वेद प्रकाश नंदा को बुधवार को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्मारक सेवा कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले सहित कई लोग शामिल हुए नंदा का १ जनवरी को डेनवर में निधन हो गया था। उन्होंने विदेशी में सक्रिय आरएसएस से संबंद्ध हिंदू संघ का नेतृत्व किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष नड़ा ने कहा कि उनका जीवन हमेशा दूसरों को प्रेरित करता रहेगा।

# धर्मेंद्र प्रधान ने पीयूष गोयल को पत्र लिखा

भवनेश्वर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीयुष गोयल को एक पत्र लिखा है। इसमे प्रधान ने गोयल से भारतीय खाद्य निगम को खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2023-24 के दौरान ओडिशा से अतिरिक्त 10 लाख मीट्रिक टन उबले चावल खरीदने का निर्देश देने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि मैं आपसे अनुरोध करता हुं कि भारतीय खाद्य निगम को खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के दौरान उबले हुए चावल की खरीद के अलावा वृद्धि के निर्देश जारी करें।

# पंजाब के गुरुद्वारे में मारे गए युवक की पहचान हुई

फगवाडा । निहंग सिख संप्रदाय के एक सदस्य द्वारा कथित तौर पर यहां एक गुरुद्धारे में मारा गया युवक पश्चिमी दिल्ली के पश्चिमपुरी में एक बेसहारा रह रहा था, पुलिस ने बुधवार को कहा। पुलिस ने एक बयान में मृतक की पहचान विशाल कपुर के रूप में की। पुलिस ने बुधवार को बताया कि दिवंगत दविंदर कपुर के बेटें विशाल का जन्म दिल्ली के पश्चिमपुरी में हुआ था। पुलिस ने कहा कि अपने शुरुआती वर्षों के दौरान, विशाल 8–10 साल तक फगवाडा में रहा

### प्रधानमंत्री के मार्ग निर्देशन का परिणाम है कि यपी में अब एमएसएमई की 96 विजन पर काम करते हुए आज जो

रांची, मुख्य संवाददाता। झारखंड सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल को ईडी ने छह पन्नों का जवाबी पत्र भेजा है। ईडी ने लिखा है कि पीएमएलए के तहत अनुसंधानरत किसी भी मामले में किसी भी तरह के नोटिस, सरकुलर या निर्देश जारी करने का अधिकार राज्य सरकार या कैबिनेट सेक्रेटरी को नहीं हैं। ईडी ने कैबिनेट सचिव को लिखा है

कि पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनुसंधान की गोपनीय जानकारी जानने के लिए पत्र लिख रही हैं, या फिर समन पर आईएएस अधिकारी रामनिवास यादव को रोककर जांच को प्रभावित करने या राज्य के द्वारा प्रस्तुत की गई

लेकर भागने की

कोशिश.गिरफ्तार

लखनऊ, प्रमख संवाददाता। बंथरा

में कानपुर रोड पर स्थित प्रधान ढाबे के

बाहर मंगलवार सुबह केन्द्रीय मंत्री

साध्वी निरंजन ज्योति की गाड़ी में एक

पुलिसकर्मियों ने उसे घेर कर पकड़

घटना के समय मंत्री गाड़ी में नहीं

थी। ड्राइवर चेतराम ने आरोप लगाया

कि आरोपी ने मंत्री को अगवा करने के

इरादे से कार भगाने की कोशिश की

थी। उसे लगा था कि मंत्री अंदर बैठी

हैं। वहीं, पलिस का कहना है कि

आरोपी पारिवारिक विवाद की वजह

से अवसाद में था। वह पुलिस की गाड़ी

समझ कर अफसर से बात करने के

MUNICIPALCORPORATION

CORRIGENDUM

Municipal Corporation Tender NIT No:

OC/CSMC/SWM/39/2024 on 17-01-2024. I

the Notice, against the 'Date of opening of

Technical bids', error in the mentioned date an

time. The correct date for the event is

12/02/2024 at 15:30 hours. The above

correction may please be noted. Other term and conditions will remain the same

Deputy Commissioner - 5
For Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation

पश्चिम मध्य रेल

मं र्वपल/टीआरडी/50/एनआईटी दि. 15.01.202

भारत के राष्ट्रपति के लिए अथवा उनकी ओर सं

वरि.मं.वि.इंजी ( क.वि. ) प.म.रे. कोटा निम्न का

कोटा मंडल-खुली निविदा स्चना

lease refer to the Chhatrapati Sambhajinaga

लिये गाड़ी में घुस गया था।

लिया और पिटाई कर दी।

## राजस्थान में छापेमारी के बाद ३९ लाख जब्त किए

जांच रोकने का हक राज्य को नहीं : ईडी

नई दिल्ली। राजस्थान में जल जीवन मिशन में धनशोधन जांच मामले में छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 39 लाख रुपये जब्त किए। बधवार को एजेंसी अधिकारियों ने जानकारी दी। ईडी ने मंगलवार को जयपर और बांसवाडा समेत आठ जगहों पर तलाशी अभियान शुरू

बनावटी सूचनाओं को ईडी तक पहुंचाकर अनुसंधान प्रभावित करने की

## सब्सिडी वाला कोयला पाने के लिए अंसारी ने रिश्वत दी

नई दिल्ली। ईडी ने बुधवार को कहा कि झारखंड के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी सब्सिडी वाला कोयला पाने के बदले में कुछ अधिकारियों को रिश्वत देता था। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को अंसारी को गिरफ्तार किया था। उसके रिवलाफ हजारीबाग में तीन स्थानों पर छापेमारी की गई थी।

ईडी ने लिखा है कि कोई भी जांच प्रभावित करता है तो उसे भी

### शामिल था. जिसने भारत में तबाही की गैरकाननी गतिविधियों में संलिप्त है। शपथ खाई थी और एक समृह बनाकर फैजान ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में

RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.ora.in

भारतीय रिज़र्व बैंक

शिष्टाचार और सुरक्षा स्थापना, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, मुख्य भवन, एसबीएस रोड, फोर्ट, मुंबई– 400001

## भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के विभिन्न परिसरों में फायरमैन की तैनाती के लिए ई-निविदा।

निविदा सं. – भारिबैं/मूंबई क्षेत्रीय कार्यालय/अन्य/4/23–24/ईटी/353

- (जीएसटी रहित) की अनुमानित लागत पर दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के विभिन्न परिसरों में फायरमैन की तैनाती के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जा रही है। संविदा की अवधि कार्य प्रदान करने की तिथि से 31 मार्च 2025 तक होगी। पात्रता के पूर्ण विवरण के साथ निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए, कृपया हमारी
- 2. ऑनलाइन निविदा वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर दिनांक 18-01-2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से देखने/डाउनलोड करने के लिए
- 3. एमएसटीसी पोर्टल (www.mstcecommerce.com) पर ई-निविदा जमा
- 4. बैंक द्वारा कोई कारण बताए बिना किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का

क्षेत्रीय निदेशक, मुंबई

# केंद्रीय मंत्री की कार जीते जी तेरहवीं कराने वाले की दो दिन बाद मौत

एटा, हिन्दस्तान संवाद। जिंदा रहते हुए दो दिन पहले अपनी तेरहवीं कराने वाले अधेड़ की बुधवार को मौत हो गई। इसका पता पुलिस को यवक घस गया। वह कार स्टार्ट कर चला तो उसने शव को पोस्टमार्टम भागने की कोशिश करने लगा। के लिए भेजा।

सकीट के गांव मुंशीनगर निवासी हाकिम सिंह यादव (52) ने 15 जनवरी को जिंदा रहते हुए अपनी तेरहवीं की थी। उनका आरोप था कि भाई-भतीजे घर और जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। झगड़ा भी करते हैं। उन्हें घरवालों पर यकीन नहीं कि उनकी मौत के बाद घरवाले उनकी तेरहवीं कराएंगे। इस डर से हाकिम ने खुद अपनी तेरहवीं कराई थी। इसके लिए हाकिम ने अपने हिस्से की आधा बीघा जमीन भी बेच दी थी। बुधवार को रोजाना की भांति उनके घर के बाहर गांव के कुछ लोग आग जलाकर ताप रहे थे। उन्होंने हाकिम को उठाने के लिए आवाज लगाई। हाकिम ने कोई जवाब नहीं दिया तो रजाई हटाकर देखा तो हाकिम मृतावस्था में पडे थे।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ₹2,92,00,000/

- वेबसाइट https://www.rbi.org.in देखें।
- करने की **अतिम तिथि 26-02-2024 को दोपहर 12.00 बजे तक** है।
- अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा जाता है।

''पैसे का वादा करने वाले ई–मेल/एसएमएस/टेलीफोन द्वारा धोखा न खाएं'

# हिन्दुस्तान

### **Hindustan Media Ventures Limited** CIN: L21090BR1918PLC000013

Registered Office: Budh Marg, Patna - 800001, India Tel: +91 612 222 3434 Fax: +91 612 222 1545 Fax: +91 612 222 1545

Corporate Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001, India Tel: +91 11 6656 1608 Fax: +91 11 6656 1445 F-mail: hmylinyestor@livehindustan.com Website: www.hmvl.in

(INR in Lakhs except Earnings per share data) Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended Dece **Particulars** Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended ember 31, December 31, 2023 30, 2023 2022 2023 2022 2023 Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Audited Revenue from operations oss for the period (before tax and/or exceptional items (1,45)(5,642)(1,451)(6,589 (5,642)oss for the period before tax (after exceptional items) (187 (427 (613 oss for the period after tax and share of profit of joint venture (82) (633 (68 (5,017)(3,809)(376) (11,424 Total comprehensive income/(loss) for the period [comprising lost (8,585 for the period after tax and share of profit of joint venture and other omprehensive income (after tax)] aid-up equity share capital (Face value - INR 10/- per share) 7,367 7,36 7,367 7.367 7.367 Other equity excluding revaluation reserves as per the balance shee 1.40.196 24.239 24,239 24,239 24,239 24,239 24,239 Securities Premium Accoun Net Worth (as per the Companies Act 2013) 1,50,98 1,52,240 1,52,299 1,52,27 15,034 10,88 Debt Equity Ratio (in times) 0.10 0.0 0.10 0.10 0.10 0.04 Capital Redemption Reserve Debt Service Coverage Ratio (in times) (0.21)(0.57)nterest Service Coverage Ratio (in times) 0.48 (2.89 0.39 (3.66 Loss per share (of INR 10/- each) (not (not (not (not (not (0.86)(0.09)(0.11)(6.8)(5.17)@Outstanding Debt comprises of current borrowings (including current maturities of long term bot

Notes: The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR), as amended. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.hmvl.in).

For the other line items referred in regulation 52(4) of the SEBI LODR, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges (BSE and NSE) and can be accessed on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

The above consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on January 17, 2024. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of the above results pursuant to Regulation 33 and Regulation 52(4) of the SEBI LODR, as amended and have issued an unmodified review opinion.

The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the

Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time Additional information on standalone financial results is as follows:

(INR in Lakhs) Particulars **Quarter Ended** Nine Months Ended Year Ended cember 31, December 31, March 31 2023 30, 2023 2022 2023 2022 2023 Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Audited Revenue from Operation: 71,34 (696 (4,749) Loss After Tax (312 (5,729)(1.056)(609)(9.297)(12.364) (84)

For and on behalf of the Board of Directors Shobhana Bhartia

दिल्ली जल बोर्ड, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ''कोरोना से बचें: मास्क पहनें, दो गज की दूरी बनाए रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं' र्डएमडी | ई-प्रापण हल में निविदा | ई-प्रापण हल के माध्यम से डाउनलोड व के निर्गमन की तिथि आरटीजीएस हेतु अंतिम तिथि व समय 2023 DJB 25.01.2024 को 252125 1 सीवर लाइन को बदलना। र्डर्ड (टी) एम-1 नि.आ.सु. सं. 62/एसई (एम-10)/ईई (टी) एम-10/2023-24

ई-प्रापण हल में निविदा ई-प्रापण हल के माध्यम से डाउनलोड ट के निर्गमन की तिथि आरटीजीएस हेतु अंतिम तिथि व समय 2023\_DJB र्डर्ड(एम)-51 (एसी-51 कालकाजी) के अधीन 31.01.2024 को ली नं. 2 गोविंद पुरी में पुरानी व क्षतिग्रस्त सीव 252135\_1 अप. 2.00 बजे तक 15 01 2024 ईई(एम)-41 (एसी-41 जंगपुरा) के अधीन शांतिवन 31.01.2024 को पार्क दरियागंज के सामने स्थापित 600 मि.मी. डाया अप. 2.00 बजे तक 15.01.2024 र्डर्ड (टी) एम-1 प्रेस नि.आ.सू. सं. 15 (2023-24)

ई-प्रापण हल में निविदा के निर्गमन की ई-प्रापण हल के माध्यम से निविदा कार्य का नाम धरोहर प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि/समय मुल्य चंद्रावल वाटर वर्क्स-II निविदा आईडी 25.01.2024 को क्लेरिफायर और फ्लोक्यलेटर नं. 2024 DJB 252165 1 अप ०२ ३० बजे तक का नवीकरण/ मरम्मत और उन्नयन काशन तिथिः 15.01.2024 सायं 06.30 अधिशासी अभियंता (ईएण्डएम)-अल्प सूचना नि.आ.सू. निविदा राशि ई-प्रापण हल में सं. एवं निविदा आईडी निविदा निर्गमन शुल्क (रु.)/ धरोहर की तिथि

ई-प्रापण हल के प्राप्ति हेत अंतिम राशि (रु.) तिथि/समय 15.01.2024 रु. 1500/-30.01.2024 निविदा आईडी नं. अपतिदेय ) ईएमडी आपूर्ति करने हेतु फॉरेस्ट एरिया में 10 नग 1,89,69,990/ नलकपों का स्थापन (डिपाजिट वर्क)। .024\_DJB\_252163 ਹਾਤਹਸ: ਸਫ ਫ ₹. 4,65,000/-सीएपीएफआईएमएस मैदान गढी को पार्न 03(2023-24) सिविलः रु. 30.01.2024 आपूर्ति करने हेतु डीडीए जमीन में 10 नग निविदा आईडी नं 1,74,99,373/-(अप्रतिदेय) ईएमडी नलकपों का स्थापन (डिपाजिट वर्क)। बजे तक 2024\_DJB\_252132 र्र्धणद्रुपमः मद दर ₹. 4,33,000/-सीएपीएफआईएमएस मैदान गढ़ी को पानी सिविलः र 30.01.2024 (अप्रतिदेय ) ईएमडी आपूर्ति करने हेतु पशुपालन जमीन में 10 निविदा आईडी नं 1.69.85.526/ नग नलकूपों का स्थापन (डिपाजिट वर्क)। 2024\_DJB\_252136 ईएण्डएमः मद दः बजे तक

र्दर्द(ईएण्डएम) एम-11 इस संबंध में विस्तृत विवरण हेतु https://govtprocurement.delhi.gov.in देखें। ज.सं. अधि. (जल) द्वारा जारी विज्ञा सं. ज.स.वि. 197/2023-24

क्र. ई—नीलामी के आरम्भ

सं. होने की तिथि तथा समय

को प्रातः 10:30 बजे

ईई(प्रोजक्ट) डब्ल्यू-**VIII** 

### उत्तर रेलवे 7/--आज़ादी<sub>का</sub> अमृत महोत्सव ई–नीलामी हेतु सूचना

वरिष्ठं मंडल वाणिज्य प्रबंधक / माल भाड़ा, दिल्ली डिवीज़न, उत्तर रेलवे, रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2022 / टीसी(एफएम) / 10 / 04 दिनांक 13.06.2022 के अनुसार, दिल्ली मंडल के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली निम्नलिखित टेनों में एसएलआर और पार्सल वान (राउंड ट्रिप के आधार पर) के स्थान को 02 वर्षों के पटटे पर देने के लिए आईआरईपीएस के ई-नीलामी मॉड्यूल के माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं:-

एस्सेट्स जिनकी नीलामी की जानी है।

12191 (F1, F2 & R1), 12457 (F1, F2 & R1), 12572 (F1), 12918 (F1), 14041 (R1),

	1	18.01.2024   को प्रातः 10:30 बजे	14316 (F1), 14507 (F1, F2 & R1), 15035 (F1 & R1), 19338 (F1), 20914 (F1), 20946 (F1), 20958 (F1), 22429 (F1), 22434 (F1), 22463 (F1), 22482 (F1)
	2	20.01.2024 को प्रातः 10:30 बजे	12066 (F1), 12428 (F1), 13430 (F2), 14731 (F1 & R1), 15060 (F1 & R1), 20409 (F1), 20473 (F1 & R1), 20488 (F1), 22168 (F1 & F2), 22950 (F1), 22986 (F1)
	3	22.01.2024 को प्रातः 10:30 बजे	12005 (F1), 12038 (F1), 12148 (R1), 12481 (F1, F2 & R1), 14714 (F1), 22421 (F1, F2 & R1), 22438 (F1)
	4	23.01.2024 को प्रातः 10:30 बजे	01 LVPH (24 टन) राउंड ट्रिप पर प्रत्येक गाड़ी में - 12226/12225, 12236/12235, 12284/12283, 12425/12426, 12432/12431, 12442/12441, 12445/12446, 12488/12487, 14033/14034, 22412/22411, 22420/22419, 22428/22427, 22429/22430, 22434/22433, 22460/22459 तथा 01 VP (23 टन) राउंड ट्रिप पर गाड़ी संख्याः 22418/22417
	5	25.01.2024 को प्रातः 10:30 बजे	12284 (F1), 14014 (F1), 14038 (F1), 14303 (F1 & R1), 14305 (F1 & R1), 14331 (F1, F2 & R1), 14545 (F1, F2 & R1), 22168 (R1), 22404 (F1), 22418 (F1), 22654 (F1)
ı			10011 (01) 10010 (01) 10010 (01) 10010 (01)

12011 (F1), 12017 (F1), 12029 (F1), 12040 (F1), 12148 (F1 & F2), 12432 (F1), 12455 (F1), 12908 (F1), 14041 (F1), 14553 (F2), 15035 (F2), 22454 (F1, F2 & R1), 27.01.2024 को प्रातः 10:30 बजे 04304 (F1, F2 & R1), 12013 (F1), 12015 (F1), 12031 (F1), 12226 (F1), 12448 (F1), 12459 (F1), 12650 (F1), 12724 (F1), 12986 (F1), 22414 (F1), 22418 (F2), 22472 29.01.2024 को प्रातः 10:30 बर

14152 (F1), 12264 (F), 20938 (F1), 12045 (F1), 14681 (F1), 22401 (F1), 14164 30.01.2024 (F1), 20938 (R1), 12754 (F1) को प्रातः 10:30 बर्ज

12036 (F1), 12463 (F1), 12584 (F1), 14035 (F1, F2 & R1), 14212 (F1), 14521 (F1, F2 & R1), 14553 (R1), 22656 (F1) 31.01.2024

महत्वपूर्ण सूचनाः 1. ई–नीलामी के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को https://www.ireps.gov.in/html/ helpdesk/learning\_centre.html. (E-Auction leasing section) पर जाने की सलाह दी जाती है। **2. धरोहर राशि जमा (ईएमडी)**: नीलामी के दौरान कुल संविदात्मक बोली मूल्य का 5% ऑनलाइन जमा किया जाना है। सफल बोलीदाता की ईएमडी सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी। 3. रेलवे प्रशासन किसी भी समय इन निविदाओं / अनुबंधों को समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार रखता है या इनके संबंध में किसी संशोधन अथवा अतिरिक्त नियमों और शर्तों के साथ इन निविदाओं को अथवा अनुबंधों के बीच में ही समाप्त करने अथवा जारी रखने के संबंध में, जो कि इन ट्रेनों

के जारी रहने अथवा समाप्त होने की स्थिति पर निर्भर करता है। निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रखता है। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

के लिए खुली मोहरबंद ई- निविदा आमंत्रित करता है। निविदा संख्या एवं कार्य का नाम-निविद तंख्या-ईएल/टीआरडी/ 50/18 (2023-24) शिफ्टींग ऑफ यआईओएल ऑन न्य फीडर मास् इन डीईई / टीआरडी / कोटा सेक्शन एण्ड एडीईई, टीआरडी / शामगढ सेक्शन ऑफ कोटा डिवीजन कार्य की अनुमानित लागत-4,59,73,707.00 निविदा बंद होने की दिनांक एवं समय- दिनांव 22/02/2024 को 15.30 बजे। **वेबसाइट क** वेवरण तथा नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से निविदा का सम्पूर्ण विवरण देखा जा सके nttp://www.ireps.gov.in/ वरि.मं.वि.इंजी वीकार किये जायेगें। निविदा दाता के पास क्लार ।। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एव आईआरईपीएस पोर्टल पर रजिस्टंड होना चाहिए

कृतेः वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) कोटा े स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

Date: January 17, 2024

कोई भी निविदा मैनुअली स्वीकार नहीं है। निविद

प्रालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेश

कंडीशन व शर्ने अवश्य पह लें ।